

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.01.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना खोड़ारे पुलिस ने 02, थाना तरबगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मनकापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती गीता पत्नी टीटू सोनकर निवासिनी ग्राम अम्बरपुर महुआखाली थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 46/23, 02. श्रीमती जोगा देवी पत्नी ननकन निवासिनी ग्राम अमवा थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 47/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कौड़ियां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. पटवारी पुत्र नान्हू उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम हिसाबतिवारी पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 24/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.01.2023

थाना इटियाथोक पुलिस ने दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त को मिशन शक्ति अभियान के तहत किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मु0अ0सं0-42/2023 धारा 376, 452, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामजग को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की पिता द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामजग पुत्र कन्नान निवासी बगाही थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 42/2023 धारा 376, 452, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

निरीक्षक रामप्रकाश यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.01.2023

थाना को०देहात क्षेत्र अन्तर्गत हुई ब्लांड मर्डर का वाछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 16.01.2023 को वादी शमीम अहमद उर्फ गुड्डू ने सूचना दिया की उसके भाई मो०वसीम उर्फ बबलू का किसी ने हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेक दिया है। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवाराज के निर्देशन में घटना का सफल अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी थी। जिसके क्रम में दिनांक 20.01.2023 को थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 02 आरोपी अभियुक्त 01. इमरान हुसैन 02. फरहान उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तलाश जारी थी।

आज दिनांक 25.01.2022 को थाना कोतवाली देहात पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखवीर खास की सूचना उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त फैज आलम को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के भाई की हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत कराया था।

हत्या का कारण-

हत्या का कारण मृतक मो० वसीम उर्फ बबलू उपरोक्त द्वारा STS मूल निधि कम्पनी में अभियुक्तगण का पैसा लगाया गया था। STS मूल निधि कम्पनी के भाग जाने के कारण अभियुक्तगण का सारा पैसा डूब गया जिसे अभियुक्तगण मृतक मो० वसीम उर्फ बबलू से बार -बार पैसे की माँग को लेकर ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. फैज आलम पुत्र स्व० मोहम्मद इलियास निवासी कटहरिया मोहल्ला थाना को०नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं० 27/2023, धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि० थाना को०देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी

01. मृतक का 01 अदद मोबाइल फोन(OPPO कम्पनी)

02. 8000/- रूपये नगद ।

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

प्र०नि० श्री महेन्द्र कुमार सिंह थाना कोतवाली देहात मय टीम।